

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

लिपिक ग्रेड-II पद हेतु द्वितीय चरण परीक्षा की निर्धारित प्रक्रिया

लिपिक ग्रेड-II प्रथम फेज परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में कम्प्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। यह परीक्षा कम्प्यूटर पर ऑनलाइन ली जायेगी, जिसमें प्रश्न-पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के अन्तर्गत प्रश्नपत्र 4 भागों में होंगे—

प्र.पत्र सं.	विषय	समय	अंक	अर्हता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक
1	हिन्दी गति परीक्षण	10 मिनट	25	9
2	अंग्रेजी गति परीक्षण	10 मिनट	25	9
3	हिन्दी दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25	9
4	अंग्रेजी दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25	9

परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मानदंड, अभ्यर्थियों के लिये दिशा-निर्देश निम्नानुसार होंगे—

(नोट:- प्रश्न-पत्र के स्वरूप व अंकों का विभाजन व मूल्यांकन संबंधी अन्य मानदंड आयोग द्वारा बाद में भी तय किये जा सकते हैं)

क – गति परीक्षण (Speed Test)

- अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र परिच्छेद (Paragraph)) को लाईनवार प्रदर्शित किया जावेगा एवं अभ्यर्थियों को उक्त परिच्छेद को लाईनवार ही टाईप करना होगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों का होगा एवं हिन्दी में परिच्छेद 400 शब्दों का होगा।
- अंग्रेजी में प्रत्येक सही 100 शब्द पर 5 अंक निर्धारित होंगे तथा हिन्दी में प्रत्येक सही 80 शब्द पर 5 अंक निर्धारित होंगे।
- दक्षता परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, जो गति परीक्षण में उक्तानुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे। अभ्यर्थियों के मूल्यांकन हेतु अंक की गणना प्रक्रिया में कतिपय सामान्य त्रुटियों के अंक नहीं दिये जावेंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है:—

- गलत वर्ण, शब्द या अंक लिखना
- वर्णों, शब्दों या अंकों का छूटना
- वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना
- विराम चिह्नों का यथावत प्रयोग नहीं करना
- शब्द-अंतराल में त्रुटि करना
- अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्माल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना
- हिन्दी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना
- मात्राओं में की गयी अनावश्यक आवर्ती जो कि दिखनें में नजर नहीं आती किन्तु कम्प्यूटर गलत बताता है। उदाहरण

$$1. \text{स्कूल} = \text{Ldwy}$$

$$2. \text{स्कूल} = \text{Ldwwwwwwy}$$

इसमें स्कूल = Ldwy को ही सही माना जायेगा।

- वर्णों का टंकन उचित प्रकार से नहीं करना उदाहरण :

$$1. \text{म} = \text{E},$$

$$2. \text{म} = \text{Ek}$$

इसमें म = E को ही सही माना जायेगा।


ख – दक्षता परीक्षण (Efficiency Test)

इस भाग के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र सारणी (Spread Sheet) के रूप में दिये जाएंगे, जिनमें आंकड़ों का टक्कन (Data Entry) एवं दो सूत्र–संयोजन करते हुए सामान्य कार्यालयोपयोग आधारित प्रश्नों (जैसे योग, औसत, प्रतिशत आदि की गणना) को दर्शाना होगा। इस भाग के प्रत्येक भाषा में कुल अंक 25 होंगे एवं इसके लिए 10 मिनट का समय प्राप्त होगा।

– अन्य दिशा–निर्देश –

1. अंग्रेजी टाईप के लिये प्रचलित फोट का प्रयोग किया जायेगा तथा हिन्दी टाईपिंग के लिये Standard की–बोर्ड एवं DevLys 010 फोट का प्रयोग किया जायेगा।

Hindi Keyboard



2. अभ्यर्थी को चारों प्रश्न पत्रों में दोनों भाषाओं की गति व दक्षता परीक्षण की परीक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जायेगा।
3. परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिये तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कम्प्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें।
4. अभ्यर्थी गति/दक्षता परीक्षण परीक्षा के लिये निर्धारित समय सारणी के अनुसार 1 घंटे पूर्व परीक्षा स्थल पर अपनी उपस्थिति देंवे, ताकि उन्हें परीक्षा से पूर्व परीक्षा सम्बंधी ब्रीफिंग दी जा सके और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व निर्धारित ब्रीफिंग कक्ष में उपस्थित हों। यदि ब्रीफिंग कक्ष में स्थान का अभाव हो, तो आप निर्धारित स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करें।
5. अभ्यर्थी परीक्षा हाल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात् कृपया सुनिश्चित कर लेवे कि कम्प्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है तथा की–बोर्ड एवं माउस भी पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में अभिजागर को सूचित नहीं करने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट बटन शुरू करने के बाद व सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा, अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि समय को नष्ट किये बगैर दिये गये प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से सही टाईप/प्रविष्टियाँ करने की कोशिश करें।

नोट:-

- प्रथम फेज की परीक्षा में सफल एवं पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश–पत्र (एडमिट कार्ड) उपलब्ध होने पर अपना डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी परीक्षा के समय डाउनलोड किये हुए प्रवेश–पत्र के साथ एक मूल फोटोयुक्त आई.डी. कार्ड भी साथ में लाएं अन्यथा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण, मोबाइल फोन इत्यादि का प्रयोग वर्जित रहेगा।
- अभ्यर्थी अपना कोई की–बोर्ड एवं कोई की–बोर्ड स्टीगर साथ लेकर नहीं आवें। परीक्षा में किसी भी प्रकार के की–बोर्ड स्टीगर की अनुमति नहीं है।